



\$450 कोरोनावायरस (COVID-19) जाँच समर्थन

\$450 Coronavirus (COVID-19) testing support – Hindi

सभी लोगों के लिए निःशुल्क जाँच

कोरोनावायरस की जाँच सभी लोगों के लिए **निःशुल्क** है। इसमें विदेशों से आने वाले आगंतुक, प्रवासी कर्मि और शरणार्थी जैसे लोग भी शामिल हैं, जिनके पास मेडिकेयर कार्ड नहीं है।

यदि आपके शरीर में कोरोनावायरस (COVID-19) के लक्षण हैं, तो यह आवश्यक है कि आप जाँच करवाएँ।

यदि आप जाँच करवाते/करवाती हैं, तो आपको विक्टोरियाई सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है

कोरोनावायरस (COVID-19) की जाँच करवाने के बाद अपने परिणाम मिलने तक आपको घर पर ही रहना चाहिए। आप केवल आपातकालीन स्थितियों में ही घर छोड़कर बाहर जा सकते/सकती हैं। आप काम पर नहीं जा सकते/सकती हैं।

यदि आपको अपनी जाँच के परिणाम मिलने तक प्रतीक्षा की अवधि में अपने काम से मिलने वाली आय के नुकसान के बारे में चिंता है, तो आप विक्टोरियाई सरकार से कोरोनावायरस (COVID-19) समर्थन के रूप में \$450 प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकते/सकती हैं।

यह समर्थन ऐसे कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, जिनके पास उपयोग के लिए अस्वस्थता अवकाश (sick leave) नहीं है। इसमें कैजुअल कर्मि, कॉन्ट्रैक्ट कर्मि और ऐसे लोग शामिल हैं, जिनके पास अब कोई अस्वस्थता अवकाश बाकी नहीं रह गया है।

विक्टोरिया में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को यह समर्थन प्राप्त हो सकता है - समर्थन प्राप्त करने के लिए आपको ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या स्थायी निवासी (परमानेंट रेज़िडेंट) होने की आवश्यकता नहीं है।

यदि आपके लिए कोरोनावायरस (COVID-19) संक्रमण की पुष्टि की जाती है या आप किसी ऐसे व्यक्ति के/की निकट संपर्क हैं जिसके लिए कोरोनावायरस (COVID-19) संक्रमण की पुष्टि की गई है, तो आपको और अधिक समय के लिए एकांतवास करने की आवश्यकता होगी। और संभावित रूप से आपको \$1500 का समर्थन भुगतान भी मिल सकता है।

विक्टोरियाई सरकार ऐसे कर्मियों को भी यह आर्थिक समर्थन दे रही है, जिन्हें अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए घर पर रहने की आवश्यकता है क्योंकि उनके बच्चों को घर पर रहने के लिए कहा गया है। यदि आप काम पर नहीं जा सकते/सकती हैं और आपको आय का नुकसान होगा, तो आपको समर्थन मिल सकता है।

और अधिक जानकारी या आवेदन के लिए कोरोनावायरस हॉटलाइन को 1800 675 398 पर कॉल करें या वेबसाइट www.dhhs.vic.gov.au/covid-19-worker-support-payment पर जाएँ।

For information in other languages, scan the QR code or visit

[DHHS.vic –Translated resources - coronavirus \(COVID-19\)](http://DHHS.vic-Translated resources - coronavirus (COVID-19))

[<https://www.dhhs.vic.gov.au/translations>](https://www.dhhs.vic.gov.au/translations)

If you need an interpreter, call TIS National on 131 450

For any questions

Coronavirus hotline 1800 675 398 (24 hours)

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only



To receive this document in another format phone 1300 651 160 using the National Relay Service 13 36 77 if required, or [email Emergency Management Communications](mailto:em.comms@dhhs.vic.gov.au) <em.comms@dhhs.vic.gov.au>.

Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne.

© State of Victoria, Australia, Department of Health and Human Services, 16 October 2020.

Available at <https://www.dhhs.vic.gov.au/translations>

OFFICIAL



Health
and Human
Services